

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020
ASSEMBLY GENERAL ELECTION-2020

अभ्यर्थी द्वारा संधारित
Mainten by Candidate

निर्वाचन-व्यय-पंजी
ELECTION EXPENDITURE REGISTER

अभ्यर्थी का नाम श्री दिलिप यादव
Name of the Candidate
निर्वाचन क्षेत्र का नाम 132, वारिमन्सात विधान क्षेत्र
Name of the Constituency
अभ्यर्थी का पता जिला - पटना, पोस्ट - वारिमन्सात
Address of the Candidate
समस्तीपुर

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

समस्तीपुर

District Election Officer
Samastipur

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा संधारित निर्वाचन-व्यय
लेखा पंजी में कुल.....98.....पृष्ठ हैं।



DM
19/10/20
निर्वाची पदाधिकारी

132- वारिसनगर.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

“क”
“A”

निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा

Register for Maintenance of Day to Day Accounts of

अभ्यर्थी का नाम :
Name of the Candidate :
राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :
Name of Political Party, if any :
निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया :
Constituency from which contested :
परिणाम की घोषणा की तिथि :
Date of Declaration of Result :
निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :
Name and address of Election Agent
उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :
Total expenditure incurred/authorized

दिल्लिप बाबू

132, वारिहा १/२५
10.11.20


(नियुक्ति की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम घोषणा की तारीख तक दोनों तारीखें निहित)
(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1	2			3	4	5
व्यय/घटना की तारीख Date of expenditure/event	व्यय का प्रकृति Nature of expenditure			कुल राशि रु० में (भुगतान किया गया + बकावा) Total Amount in Rupees (Paid + outstanding)	अदाता का नाम एवं पता Name and Address of Payee	बिल संख्या/वारीक संख्या तारीख Bill Voucher and date
	विवरण Description	मात्रा Quantity	प्रति यूनिट दर Rate Per unit			
13/10/20	N.R.	1	10,000/-	10,000/-	अज्ञेय	१३/१०/२०


प्रमाणित किया जाता है कि यह लेखा निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन रखे है
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951


चाले अभ्यर्थियों के व्यय के दिन-प्रति-दिन लेखा संधारण हेतु पंजी
 Day Accounts Election Expenditure by Contesting Candidates

परिशिष्ट-3 (1)
 Annexure - 3 (i)
 भाग-1
 Part - I

	5 बिल संख्या/व सख्या तारीख Bil Voucher and	6 उसके निर्वाचन द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate or election agent	7 राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि, (पूरा नाम और पता सहित) Amount incurred/ authorized by other individual/ association/ body/ any other (mention full name and address)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any
	संख्या/व सख्या तारीख Bil Voucher and	NIL	NIL	NIL. Bank - opened after nomination  E. O.	

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 77 of the Representation of the People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

found correct  A.E.O


 अर्थी का हस्ताक्षर
 Signature of the Candidate

**निर्वाचन सड़ने चाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-दिन
Cash Register for Maintenance of Day to**

अभ्यर्थी का नाम :

Name of the Candidate :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा :

Constituency from which contested :

परिमाण की घोषणा की तिथि :

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम और पता :

Name and address of Election Agent :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिमाण की घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियाँ सहित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

प्राप्ति Receipt				भुगतान Payment	
तिथि Date	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई Name and address of person/ party association/body/any other from whom the amount received	रसीद संख्या Receipt No.	राशि Amount	बिल सं०/ वाउचर सं० तथा तिथि Bill No./ Voucher No. and date	प्राप्तकर्ता का नाम Name of Payee and Address
1	2	3	4	5	6
13-10-20	Self		50000/-		
13-10-20	N R				

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/ मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखी गयी सही प्रति है।
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation

(परिपत्रक
of the

लेखों के रख-रखाव के लिए रोकड़ रजिस्टर
Accounts by Contesting Candidates

51

परिशिष्ट-3 (1)
 Annexure - 3 (i)

भाग-11

Part - II

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

Name of Political Party, if any :

		शेष राशि Balance Amount	अभ्युक्ति, यदि कोई हो Remarks if any
व्यय की प्रकृति Nature of Expenditure	राशि Amount	यह स्तंभ वहाँ पर पर जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि एकदम से अधिक स्थान/व्यक्तियों के पास रखा गया है, तो साथ-साथ शेष राशि का उल्लेख करें) Places at which or person with whom the balance is kept (if cash is kept at more than one place/ persons, mention name and balance available	यदि व्यय को इस सारणी के स्तंभ 7 में परिभाषित नहीं किया गया है, तो इस व्यय के संबंध में स्तंभ 2 में उल्लेखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए। Any expense mentioned in column 7 of this table and not mentioned in column 2 of table of part - I should be clarified here
7	8	9	10
10,000/-		10,000/- 0	

(परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।)
 of the People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

found correct
 1/10

[Signature]
 S. O.

[Signature]

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
 Signature of the Candidate

निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-दिनांक
Bank Register for Maintenance of Day to Day

अभ्यर्थी का नाम :

Name of the Candidate :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा था :

Constituency from which contested :

परिमाण घोषणा की तिथि :

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :

Name and address of Election Agent :

बैंक का पता :

Name of the Bank Branch Address :

खाता संख्या :

Account No. :

(नामांकन की तिथि से परिमाण घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियाँ सहित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

**जमा
Deposit**

तिथि Date	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा पता तिनसे राशि प्राप्त की गई / बैंक में जमा की गयी Name and address of person/party association/body/any other from whom the amount received/ deposited in Bank	नकद/चेक सं०, बैंक का नाम तथा शाखा Cash/Cheque No., Bank name and Branch	राशि Amount	चेक सं० Cheque No.
1	2	3	4	5
15-10-20	g e d i t		शुद्ध	

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखी गयी
 Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation

के लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर
Accounts by Contesting Candidates

परिशिष्ट-3 (1)
 Annexure - 3 (i)

राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई हो
 Name of Political Party, if any

80

भाग-III
 Part - III

भुगतान Payment			शेष Balance	टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any
प्राप्तकर्ता का नाम Name of Payee	व्यय की प्रकृति Nature of Expenditure	राशि Amount		
6	7	8	9	10
		शुद्ध	0	कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो धारा-1 की सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए। Any expense mentioned in column 7 of this table and not mentioned in column 2 of table of part- I should be clarified here

सही प्रति है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।)
 of the People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

found correct-
 P.E.O.

[Signature]
 E.O.

[Signature]
 अम्बरी का हस्ताक्षर
 Signature of the Candidate